

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 2007/फाल्गुन 30, 1928

No. 124]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2007/PHALGUNA 30, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2007

सं. 43/2007-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 215(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, कतर में उद्गमित या वहां से निर्यात किए गए कास्टिक सोडा जिस पर की भारत सरकार के तदेन वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 121/2002-सीमाशुल्क, तारीख 31 अक्टूबर, 2002 [सा.का.नि. 745(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2002 द्वारा प्रकाशित] के तहत प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित किया गया है, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड 1, में प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/03/2007-डीजीएडी, तारीख 9 मार्च, 2007 के तहत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (पठित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपादित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम, 23 के तहत, प्रतिपादन शुल्क जारी रखने के मामले में निर्णायक समीक्षा आरंभ की है और समीक्षा के सम्पन्न होने तक, प्रतिपादन शुल्क को इसके सम्पत्ति की तारीख से एक साल की अवधि तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त नियम के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 121/2002-सीमाशुल्क, तारीख 31 अक्टूबर, 2002, सा.का.नि. 745(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2002 का

निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“3. यह अधिसूचना, जब तक कि अधिसूचना को पहले विखंडित न किया जाये, 26 मार्च, 2008 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक प्रभावी रहेगी।”।

[फा. सं. 354/11/2002-टीआरयू]

सोनल बजाज, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2007

No. 43/2007-CUSTOMS.

G.S.R. 215(E).—Whereas, the designated authority vide notification No. 15/03/2007-DGAD, dated the 9th March, 2007, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th March, 2007, has initiated review, in terms of Sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said Rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on Caustic Soda, originating in, or exported from, Qatar, imposed vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), No. 121/2002-Customs, dated the 31st October, 2002, published in the Gazette of India vide number G.S.R. 745(E), dated the 31st October, 2002, and has requested for

extension of anti-dumping duty for a period of one year from the date of its expiry, in terms of Sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act, pending the completion of the review;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Act and in pursuance of rule 23 of the said Rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), No. 121/2002-Customs, dated the 31st October, 2002, published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 754(E), dated the 31st October, 2002, namely:—

In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“3. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 26th March, 2008, unless the notification is revoked earlier.”

[F. No. 354/11/2002-TRU]

SONAL BAJAJ, Under Secy.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2007

सं. 44/2007-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 216(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, यूरोपीय संघ में उद्गमित या वहां से निर्यात किए गए सोडियम नाईट्राइट जिस पर की भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 51/2005-सीमाशुल्क, तारीख 27 मई, 2005 [सा.का.नि. 341(अ), तारीख 27 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित] के तहत प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित किया गया है, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड 1, में प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/6/2006-(एसएसआर)-डीजीएडी, तारीख 6 मार्च, 2007 के तहत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपादित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत, प्रतिपादन शुल्क जारी रखने के मामले में निर्णायक समीक्षा आरंभ की है और समीक्षा के सम्पन्न होने तक, प्रतिपादन शुल्क को इसके समाप्ति की तारीख से एक साल की अवधि तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त नियम के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 51/2005-सीमाशुल्क, तारीख 27 मई, 2005,

सा.का.नि. 341(अ), तारीख 27 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“3. यह अधिसूचना, जब तक कि अधिसूचना को पहले विखंडित न किया जाये, 27 मार्च, 2008 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक प्रभावी रहेगी।”

[फा. सं. 354/24/2002-टीआरयू]

सोनल बजाज, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2007

No. 44/2007-CUSTOMS

G.S.R. 216(F).—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/6/2006-(SSR)-DGAD, dated the 6th March, 2007, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 6th March, 2007, has initiated review, in terms of Sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said Rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on Sodium Nitrite, originating in, or exported from, European Union, levied *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/2005-Customs, dated the 27th May, 2005, published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 341(E), dated the 27th May, 2005, and has requested for extension of anti-dumping duty for a period of one year from the date of its expiry, in terms of Sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act, pending the completion of the review;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Act, and in pursuance of rule 23 of the said Rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/2005-Customs, dated the 27th May, 2005, published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 341(E), dated the 27th May, 2005, namely:—

In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“3. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 27th day of March, 2008, unless the notification is revoked earlier”.

[F. No. 354/24/2002-TRU]

SONAL BAJAJ, Under Secy.